

राज्यसमाचार

गुजरात

दक्षिण गुजरात में भूकंप के झटके: तीव्रता 3.7

- गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र भरुच से 38 किमी की दूरी पर था।दक्षिण गुजरात के कई क्षेत्रों में सूरत, तापी, भरुच, नवसारी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है।

हरियाणा

सोनीपत डिजिटल भुगतान करने में देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया

- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान में सफलता हासिल करने के बाद हरियाणा के सोनीपत जिले को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। अब जिले ने कैशलेस अभियान के दौरान डिजिटल भुगतान करने में देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को सम्मानित किया है।

पश्चिम बंगाल

तान्या सान्याल बर्नी भारत की पहली महिला फायर फाइटर

- तान्या फायर फाइटर्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पहली बार एयरपोर्ट्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया ने किसी महिला फायर फाइटर की नियुक्ति की है। इससे पहले इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व कायम था। तान्या ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और एक महीने में जॉइन कर लेंगी।

राष्ट्रीयसमाचार

देशभर में एक रोड टैक्स नीति लागू करने की तैयारी

- जीएसटी के बाद अब देश में प्राइवेट बसों का भी एक ही रोड टैक्स होगा। पिछले दिनों गुवाहाटी में हुई ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कशाप में यह प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए परिवहन मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस पर संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा।

देश में सात नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे

- देश की परिवहन व्यवस्था व व्यापार को गति देने के लिए सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। राज्यों की आवश्यकता व जरूरत को समझने के लिए वित्त विभाग विभिन्न शहरों में संवाद कर रहा है। जून में मुंबई में 84 देशों के सम्मेलन में भारत एशियन बैंक से बड़ा अनुदान ले सकेगा।

भारतीय चुनाव आयोग ने ईआरओ एवं एईआरओ प्रमाणन कार्यक्रम आरंभ किया

- भारतीय चुनाव आयोग ने अप्रैल 19 से 21 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी) के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किया।
- देश भर के लगभग 280 एसएलएमटी ने प्रशिक्षण में भाग लिया जो बाद में राज्य/संघ शासित प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों को सोपानित (कैस्कैड) प्रशिक्षण देंगे एवं मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के लिए प्रमाणन पाठ्यक्रम का संचालन भी करेंगे।

अंतरराष्ट्रीयसमाचार

विश्व की सबसे बुजुर्ग इंसान का 117 वर्ष की आयु में निधन

- दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान का दक्षिणी जापान में निधन हो गया. उनकी आयु 117 वर्ष थी. नबी ताजीमा का करीब एक अस्पताल में निधन हो गया. नबी का जन्म चार अगस्त 1900 में हुआ था. उनका शहर किकाई जापान के चार मुख्य द्वीपों के दक्षिणी भाग क्यूशू पर कागोशिमा प्रांत में स्थित है.

विश्व पृथ्वी दिवस

- हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस (अर्थ डे) की शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर गेर्लॉर्ड नेल्सन ने की थी। 1969 में सांता बारबरा, कैलिफोर्निया में तेल रिसाव की भारी बर्बादी को देखने के बाद वे इतने आहत हुए कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर इसकी शुरुआत करने का फैसला किया।
- 1970 से 1990 तक यह पूरे विश्व में फैल गया और 1990 से इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हर साल अरबों लोग मनाते हैं और यह शायद उन कार्यक्रमों में से एक है जिसे सर्वाधिक तौर पर मनाया जाता है।

विज्ञान समाचार

IIT-Kanpur: उपग्रह और सैन्य उपकरणों की उम्र बढ़ाएगा

- देश की सूचना तकनीक, रक्षातंत्र और मिसाइल सिस्टम को और अधिक मजबूत करने में आईआईटी कानपुर सहयोग करेगा। संस्थान के वैज्ञानिक उपग्रहों की लांचिंग और सेना के बेस स्टेशन से लेकर सरहद तक प्रयोग होने वाले उपकरणों की उम्र को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।

जिम ब्रिडेंस्टाइन होंगे नासा के नए प्रमुख

- अमेरिकी सीनेट ने डेमोक्रेट सांसदों की आपत्तियों के बावजूद बेहद कम अंतर से नए नासा प्रमुख के नाम पर अपनी मुहर लगा दी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख पद के लिये जिम ब्रिडेंस्टाइन का नाम चुना था , जिस पर डेमोक्रेट

सांसदों ने यह कह कर आपत्ति जतायी थी कि ब्रिडेंस्टाइन तकनीकी पृष्ठभूमि से नहीं हैं।
अमेरिकी नौसेना से संबद्ध और पूर्व पायलट रहे जिम ब्रिडेंस्टाइन ओकलाहोमा से सांसद हैं।

आर्थिक समाचार

जनधन योजना: 80 हजार करोड़ पार पहुंची जमा राशी

- मोदी सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जनधन योजना को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके खातेदारों की संख्या 11 अप्रैल 2018 को बढ़कर 31.45 करोड़ हो गई वहीं जमा राशि भी बढ़कर 80 हजार करोड़ के पार पहुंच गई। अधिकृत आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। जनधन के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी योजना के तहत देश की आबादी के बड़े हिस्से के पहली बार बैंक खाते खोले गए हैं। अगस्त 2014 में शुरू की गई यह योजना विश्व में अनूठी है।

खेल समाचार

मोंटे कार्लो खिताब: राफेल नडाल ने 11 वीं बार जीता खिताब

- 31 वर्षीय स्पेनिश धुरंधर ने निशिकोरी को 6-3 6-2 से सीधे सेटों में शिकस्त दी जिससे वह ओपन युग में एक ही टूर्नामेंट 11 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गये।